



विदेह ८९ अंक ०१ सितम्बर २०११ अंक ४
मास ४५ अंक ८९

विदेह
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

बि एन ए विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

२०११ म अंक ४९ अंक ८९

२०११ म अंक ४९ अंक ८९

२०११ म अंक ४९ अंक ८९

२०११ म अंक ४९ अंक ८९

२०११ म अंक ४९ अंक ८९

३० अंक

३०११ म अंक ४९ अंक ८९

३०११ म अंक ४९ अंक ८९

३०११ म अंक ४९ अंक ८९

३०११ म अंक ४९ अंक ८९

३०११ म अंक ४९ अंक ८९



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

उपलब्ध ३ अंक २ ३

उपलब्ध ३ अंक २ ३

उपलब्ध ३ अंक २ ३

उपलब्ध ३ अंक २ ३

५ अंक २ ३

५ अंक २ ३

६ अंक २ ३

७ अंक २ ३

बि एच ए विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili
Fortnightly e Magazine विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धिमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

::

:: :: ::

::

::

::

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११

::

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका ५०

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका ५०

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११
↑ विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह सरस्वत

ः ः ः ः

ः

ह एतन्मः एतन्मः

ॐ एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः

एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः

एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः

एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः
एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः एतन्मः



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिकाको रूपमा विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह ११ माथिली फोर्टनाइटली ई मागजिन विदेह अंशय द्योशिनो पौष्णिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

३

पत्रिकाको रूपमा विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह ११ माथिली फोर्टनाइटली ई मागजिन विदेह अंशय द्योशिनो पौष्णिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माहसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३९३३

७

३९२७

३५ ३९४८

३४ ३९५६ ९

३३

८

३५ ३९४९

३३ ३९४९

ऑ



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१. १५३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

१. ३३३ ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

१. ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

१. ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

१. ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३

३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३: ३३३
३३३: ३३३



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका २०१७

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका २०१७

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

- १९९४
- १९९५
- १९९६
- १९९७
- १९९८
- १९९९
- २०००
- २००१
- २००२
- २००३
- २००४
- २००५
- २००६
- २००७
- २००८
- २००९
- २०१०



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- ३९९२ ...
- ३९९३ ...
- ३९९४ ...
- ३९९५ ...
- ३९९६ ...
- ३९९७ ...
- ३९९८ ...
- ३९९९ ...
- २००० ...
- २००१ ...
- २००२ ...
- २००३ ...
- २००४ ...
- २००५ ...



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृत

ISSN 2229-547X VIDEHA

२००६ ...
 २००७ ...
 २००८ ...
 २००९ ...
 २०१० ...
 २०११ ...



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धिविह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

२०१० मससं अंक ४९ अंक ८९

२००९ मससं अंक ४८ अंक ८८

२००९ मससं अंक ४७ अंक ८७

२००९ मससं अंक ४६ अंक ८६

२००९ मससं अंक ४५ अंक ८५

२००९ मससं अंक ४४ अंक ८४

२००९ मससं अंक ४३ अंक ८३

२००९ मससं अंक ४२ अंक ८२

२००९ मससं अंक ४१ अंक ८१

२००९ मससं अंक ४० अंक ८०

२००९ मससं अंक ३९ अंक ७९

२००९ मससं अंक ३८ अंक ७८

२००९ मससं अंक ३७ अंक ७७

२००९ मससं अंक ३६ अंक ७६

२००९ मससं अंक ३५ अंक ७५

२००९ मससं अंक ३४ अंक ७४

२००९ मससं अंक ३३ अंक ७३

२००९ मससं अंक ३२ अंक ७२

२००९ मससं अंक ३१ अंक ७१

२००९ मससं अंक ३० अंक ७०

२००९ मससं अंक २९ अंक ६९

२००९ मससं अंक २८ अंक ६८

२००९ मससं अंक २७ अंक ६७

२००९ मससं अंक २६ अंक ६६

२००९ मससं अंक २५ अंक ६५

२००९ मससं अंक २४ अंक ६४

२००९ मससं अंक २३ अंक ६३

२००९ मससं अंक २२ अंक ६२

२००९ मससं अंक २१ अंक ६१

२००९ मससं अंक २० अंक ६०

२००९ मससं अंक १९ अंक ५९

२००९ मससं अंक १८ अंक ५८

२००९ मससं अंक १७ अंक ५७

२००९ मससं अंक १६ अंक ५६

२००९ मससं अंक १५ अंक ५५

२००९ मससं अंक १४ अंक ५४

२००९ मससं अंक १३ अंक ५३

२००९ मससं अंक १२ अंक ५२

२००९ मससं अंक ११ अंक ५१

२००९ मससं अंक १० अंक ५०

२००९ मससं अंक ९ अंक ४९

२००९ मससं अंक ८ अंक ४८

२००९ मससं अंक ७ अंक ४७

२००९ मससं अंक ६ अंक ४६

२००९ मससं अंक ५ अंक ४५

२००९ मससं अंक ४ अंक ४४

२००९ मससं अंक ३ अंक ४३

२००९ मससं अंक २ अंक ४२

२००९ मससं अंक १ अंक ४१



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासुपिदिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२०११ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०१ अंक ०१ सितम्बर

२०१२ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०२ अंक ०१ सितम्बर

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०३ अंक ०१ सितम्बर

०

०

०

०

२०१३ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०४ अंक ०१ सितम्बर

२०१४ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०५ अंक ०१ सितम्बर

२०१५ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०६ अंक ०१ सितम्बर

२०१६ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०७ अंक ०१ सितम्बर

२०१७ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०८ अंक ०१ सितम्बर

२०१८ विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह १०९ अंक ०१ सितम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

२०
विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

३
विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरकृष्ण

ISSN 2229-547X VIDEHA

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

...

... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

८९००० १३३

०१ ३०००

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।

०१ ३०००

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।

उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।
उपरोक्त विवरणों पर ध्यान देने पर यह स्पष्ट है कि यह एक ही व्यक्ति है।



विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* त्रिदेह प्रथम द्वाैथिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०९ सितम्बर

२०१९ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, **VIDEHA**

गान्धीमिह

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* त्रिदेह प्रथम द्वाैथिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०९ सितम्बर



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह मासपत्रिका विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम दोधिवी पत्रिका ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह मासपत्रिका विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम दोधिवी पत्रिका ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह मासपत्रिका विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह प्रथम दोधिवी पत्रिका ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम दोषिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम दोषिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानवीय

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
<http://www.videha.co.in>

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
<http://www.videha.co.in>



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धुमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

बिहारी विदेह पत्रिका... (faded text)

२. बिहारी विदेह पत्रिका...

(faded text, likely bleed-through from the reverse side of the page)



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९)<http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

यानुभिह संस्कृतम्

वृत्तियं ननु चकार, ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार

ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
अँ ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार

ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार

ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार

ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार
ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार ननु चकार



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माथुसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह वि. एन. रु. मिडे कर्तृत्वे विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह वि. एन. रु. मिडे कर्तृत्वे विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह वि. एन. रु. मिडे कर्तृत्वे विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह वि. एन. रु. मिडे कर्तृत्वे विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह वि. एन. रु. मिडे कर्तृत्वे विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह वि. एन. रु. मिडे कर्तृत्वे विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

बि एन एरु विदेह विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine विदेह अंशय द्योशिनो पौषिकक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माहसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीमिह

३०५०५० ०००००० ०००००० ०००००० २ ०००००० ००००००
००००० ३ ०००००००००० ००००००

३०६०६० ०००००० ०००००० ०००००० २ ००००००
००००० ३ ०००००००००० ००००००

३०७०७० ०००००० ०००००० २ ०००००० ०००००० ३
००००० ००००० ०००० ४ ०००००० ०००० ००००

३०८०८० ०००००० ०००००००० ०००० ०००००० ००००
३ ०००००००००० ०००००० २ ०००००० ०००००० ३
००००० ०००००००४ ०००० ०००००००० ००००००

३०
०००००००००० ०००००० ०००००० ०००००० ००००००
०००००००००० ०००००० ०००००० ००००००००००
००००० ०००००००००० ०००००० ००००००००

३
०००००००००००
०००००००००० ००००००
००००००००००० ००००००००००
०००००००००० ००००००००००
०००००००००० ००००००००००
०००००००००० ००००००००००००



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धिमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

१. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
२. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
३. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

४. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
५. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
६. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
७. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

८. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
९. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१०. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

२

पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

१. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
२. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
३. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
४. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
५. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

६. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
७. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
८. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
९. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१०. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

११. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१२. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१३. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१४. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१५. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ

१६. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१७. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१८. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
१९. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ
२०. पत्रिका के सम्बन्ध में सूचनाएँ



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

पुस्तकालय, विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत

3

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत
 पता: विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका, विदेह, मिथिला
 प्रदेश, भारत



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृत

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

१

विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
 विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

वर्ष: ११ अंक: ४५ अंक: ८९
मैथिली: ११०४५०१०१ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९

अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९

२

अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९

अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९

अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९

अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९
अंक: ८९ अंक: ८९ अंक: ८९



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह

विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा
विदेह पत्रिका का सम्पादन विदेह
मैथिली साहित्य परिषद द्वारा



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानुषिह संस्कृत

वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९
 विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 विदेह अंशय द्यौशिनौ पौषिक अ
 विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

२

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 विदेह अंशय द्यौशिनौ पौषिक अ
 विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

१

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

२

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

२



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

१

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

२

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९)<http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह सरक्यूला

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

3

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

3

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह सरस्वत

१. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

२. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

३. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

४. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

५. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

६. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

७. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

८. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

९. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

१०. बिदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दैशिनो पश्चिम अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

खंस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

२

महानगर एवम् अन्तर्गत १९८१ एतत्तु चारु
महानगरात्तु चारु महानगरात्तु महानगरात्तु
महानगरात्तु महानगरात्तु महानगरात्तु

३

० महे एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु

२

१ महे एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु

३

० महे एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु
एतत्तु चारु एतत्तु चारु एतत्तु चारु



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासुविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका

3

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैयिदी पक्षिक ७ पत्रिका



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धिमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

२

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥



अस्मिन् मासके अन्तर्गते अस्माकं अनेके लेखन आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।

अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि । एकरे अन्तर्गत अस्माकं लेखक आसथि अछि ।



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माहसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

००० ०० ००००००० ०००० ००००० ००० ०० ०० ००
००००००००००

२

०० ०० ००००० ०० ०००० ०००००
०० ०००० ०० ०० ००००० ०० ०००० ०००००
०००००० ००००० ००००० ०० ०० ००००० ००००
०००० ००० ०००० ००० ०००००००
००००० ०००० ०० ०००० ०००००००
०० ०००० ०० ०० ००००० ०० ०००० ००००० २

००००००० ०० ०००० ००० ०००००००
०००० ००००० ००००००० ००००००००००
०००० ००००० ००००००० ०००० ००००० ०००००००
०००० ०००० ०००० ००००० ०००० ०००००००००
०० ०००० ०० ०० ००००० ०० ०००० ००००० २

०००००० ०००० ००० ००००० ००० ०००० ०० ००००
००००० ०० ०००० ००० ००००००००
००० ०००० ०००० ००० ००० ००००
००० ००००० ००००० ०० ०००० ००००
०० ०००० ०० ०० ००००० ०० ०००० ००००० २

०००० ०००० ०००० ००००० ०००० ०००० ००००
०० ०० ०००० ००० ००००० ०००००००० ०००
००००० ०० ०००० ००००० ०० ००००
०००० ०० ०००००० ००००० ००००० ००००
०० ०००० ०० ०० ००००० ०० ०००० ०००००

३

००००० ०००० ००००००
००००० ०००० ००००० ०००० ००००० ०००० ०००००००
०००० ०००००० ०००००० ००००००० ०००० ०००००००
००००० ००० ००० ००००० ०० ००००० ०००००
०००००० ००००००० ००००० ०० ०००००० ०० ००००००
०००० ००००० ०००० ०० ०००००० ०००० ०० ०००००००
००००० ०००० ००० ००००० ०००००० ०० ०००००००



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिका का नाम: विदेह, पत्रिका का प्रकार: पत्रिका, पत्रिका का अंक: ८९

संज्ञा

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

संज्ञा

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,

विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,
विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है, विदेह का अर्थ है,



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह संस्कृतम्

विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह

विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिका: २०११ अक्टोबर २०११
अंक: ००१ अ. ०१ अंक ०१

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद

संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद
संस्थापक: श्री. रामचन्द्र प्रसाद



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३३३

३३३ ३३ ३३ ३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३
३३३३ ३३ ३३३३ ३३३३३३३ ३३३३ ३३३३

३३३ ३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३३ ३३३३३३३
३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३

३ ३३३३३३३३ ३३३३३ ३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३
३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३

३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३३३३
३३३३ ३३३ ३३३ ३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३

३३३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३
३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३

३३३

३३३ ३३३३३ ३३३ ३३ ३३३ ३३३ ३३३३
३३३३३३ ३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३३

३३३ ३३३३३ ३३ ३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३
३३३३३ ३३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३३३३३३३ ३३३३३

३३३३३३ ३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३
३३३३३ ३३ ३३ ३३३ ३३३३३ ३३३३३

३३३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३
३३३ ३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३३

३३ ३३३ ३३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३
३३ ३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३३ ३३३३३३३३३३ ३३३३३



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

६४१३

००० ०००० ००० ००००००००० ००
०००० ०००० ०००० ०० ०० ००००० ००
०० ०० ००० ००० ००० ०००००० ००००
००० ०० ०००० ०००० ०००० ०००००
००००००० ०००००० ०० ०००००० ०००
०००० ०० ०००००० ०००० ००००००००
०००० ०० ०००००० ००००००० ००
००० ०००० ००००० ०० ००० ००००
०००० ०००० ०००००० ००००० ००००० ०००००

६४१३

०००००० ००००० ००००० ००० ०००० ०००
०० ०००० ००० ०००००० ००० ०००० ०००
०००००० ००००० ०० ०००० ०००० ००००
०० ०००० ०० ००००० ०००००० ०००००००
००००० ०००००० ०००००० ०००० ००००० ०००००००
००००००० ००००००० ००००००० ०००० ००००
००००००० ००००००० ०००००००० ०००००००
०००० ०००००००० ०००००००० ०००००००००
०० ०० ०० ०००००० ००००००००००००००००



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

६४१३

१३५५ १०४३ ३ १०४३५० १०१ ३३१३ १३
१३५३ १५५५ १०४३५० १०१ १०४३५३ १३

१०१ १०४३५३ १०१ ३३१३ ३ १०४३५३
१५५५ १०४३५३ १०१ ३३१३ ३ ३३१३ १३

१०१ ३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३
३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३ ३३१३

३३१३ ३३ ३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३
३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३

३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३
३३३३ ३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३

६४१३

३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३
३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३

३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३
३३३३ ३३ ३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३

३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३३३
३३३३ ३३३ ३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३

३३३३ ३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३३ ३३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३

३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मातृमिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५

५५५

५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५ ५५५



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

बि एच ए विदेह पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
मानसिंह सरस्वत
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
मानसिंह सरस्वत
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
मानसिंह सरस्वत

संज्ञा

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
मानसिंह सरस्वत
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
मानसिंह सरस्वत
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
मानसिंह सरस्वत

संज्ञा

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

पत्रिका संकाय: १०१२३४ १०१२३४
४. ४.०१ १२३४ ४५६ ७८९ ०१२

१२३४५ ६७८९०. १२३४ ५६७८
९०१२ ३४५६७ ८९०१ २३४५ ६७८९

१२३४५ ६७ ८९० १२३ ४५६ ७८९
१०१२३४५६ ७८ ९०१२३४ ५६७८ ९०१२ ३४५६

१२३४५: ६७. ८९०१२३४५६ ७८९
१०१२ ३४ ५६७८९० १२३४ ५६७८ ९०१२ ३४५६

६७८९

१२३४ ५६७८९० १२३४ ५६७८ ९०१२
१२३४ ५६७८९०१२ ३४५६ ७८९० १२३४ ५६७८९

९०१२. ३४५६७८ ९०१२३४ ५६ ७८९०
१२३४५६ ७८९ ०१२ ३४५६ ७८९० १२३४ ५६७८९

९०१२ ३४५६७८९. ०१२३ ४५६७ ८९०१
१२३४. ५६७८९०. १२३४ ५६७८ ९०१२ ३४५६

१२३४ ५६७८९०. १२३४५६७८ ९०१२३४.
१२३४५ ६७८ ९०. १२३४५ ६७८९ १०१२ ३४५६७८९

९०१२ ३४ ५६७८९ १०१२३४ ५६७८ ९०१२ ३४ ५६७८
१०१२३४ ५६७८९०. १२३४५ ६७८९ १०१२ ३४५६७८९

६७८९

१२३४५६: ७८९० १२३४५६७८. ९०१२३४
५६७८: ९०१२ ३४. ५६७८९०. १२३४५६

७८९० १२३४५ ६७८ ९०१२ ३४५६७८९.
१२३४: ७८९० ३४. ५६७८९०. १२३४५६



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

संस्कृतम्

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

संस्कृतम्

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृत

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।
विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।

विदेह पत्रिका, विदेह, बिहार, भारत।



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरकट्टा

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

००० ००० ००० ००००००००००
००० ००० ००० ००००००००००

००००

००००० ००० ००००० ०० ०००००० ००
००००० ०००० ०००० ०० ० ००००००० ००

००००० ००० ०० ०००० ०० ००००
००००० ०००० ०००० ०० ० ०००००० ००

००००० ००००००००० ००००० ०००० ००००
००००० ००००० ०००० ०० ० ००००० ०००००० ००

००००० ०००००० ०० ०००० ००००० ००००००
००००० ००००० ०००००० ०० ० ०००००० ००

००००००० ०००० ०००० ० ००००० ०००००००
००००००० ००००००० ००००००००००० ००००० ००

००००

००००० ०००० ००००० ०० ०००००० ०००
०००००००० ०००० ००००० ०० ० ००००० ०००

००००० ००००००००० ०० ०००० ०००० ००००० ००००
०००० ००००० ००००००००००००००० ००००

०००० ०० ०००० ००० ००००० ०० ०००००
००००० ००००००० ०००००० ०००००० ००००

००००० ०० ००००० ०००० ००००० ००००० ००००००
००००० ०००० ०० ००००० ०००००० ०००००

०००० ०००००० ००० ०० ०००००० ००००
००००० ००००० ०००० ०००० ०००००० ००००



१०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३
१०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३ १०१३

१०१३



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवीय

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
 विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
 संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
 विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
 संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कृतम्

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
 विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
 संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA
 विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
 विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
 संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

संस्कृतम्

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ई पत्रिका
 विदेह प्रथम द्वैमासिक पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
 संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृत

ISSN 2229-547X VIDEHA

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००

१००० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १०००



२६. १६५५ ३२६ १०१ ३३३३ १६
३२६ ३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३ ३३३३३३३
३३ ३३ ३३ ३३३ ३३ ३३३ ३३३

३३३३ ३३ ३३३३ ३ ३३३३ ३३३३ ३३३३३
३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३

उत्तर

३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३३३३

३३३३ ३३ ३३३३ ३३३ ३३ ३३३३ ३३३३३३३३३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३३३३३३

३३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३३३३३३

३३३३ ३३३३ ३३३३३ ३३३३ ३३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३३३३३

३३३३ ३३ ३३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३३३३३३३३
३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३३३३३

उत्तर

३३ ३३३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३३
३३ ३३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३

३३३३३ ३३३३३३ ३३३३३ ३३३३ ३३३३
३३३३३ ३३३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३

३३३३३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३३३ ३३३३
३३३३३३३३ ३३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवीमिह

चरकृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

पु. १३३५, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
 ए. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३

सूचिका

- १. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- २. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ३. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ४. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ५. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ६. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ७. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ८. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ९. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- १०. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३

सूचिका

- १. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- २. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ३. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ४. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ५. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ६. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ७. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ८. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- ९. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३
- १०. वि. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३, वि. १३३३, पो. १३३३



१४१३

१३३ १३३३ १३३३३३३३ ३. १३३३३३३ १३३३३ १३३
 ३३३३ ३३३ ३३३ ३. ३३३३३३. ३३३ ३३३३३३ १३३
 ३३३ ३३३ ३. ३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३ ३३३३
 १३३ ३३३३. ३३३३ ३३३३३३. १३३ ३३३३३३३ १३३
 १३ ३३३३. ३३३ ३३३३३ ३३३ ३३ ३३ ३३
 ३३३३ ३३३ ३३३ ३३३३३ ३३ १३३ ३३३३३३ १३३
 ३३ १३३ ३३ ३३३३ ३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३३३३३ ३३
 ३३३३३ ३३३ ३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३३ १३३३
 ३३३३३३३ ३. ३ ३३३३ ३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३ १३३३

१४१३

३. ३३३३३ ३३३ ३३३३३ ३३३३
 ३. ३ ३३३३३३३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३
 ३३ ३. ३३३३३ ३३ ३३३३३
 ३३३३३३ ३३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३
 ३३३३ ३. ३३३३३३ ३३३३३
 ३३३३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३
 ३३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३.
 ३३३ ३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३३
 ३. ३३३३३३३ ३३३३३३३३३३.
 ३ ३३३३३३३ ३३३३३३३ ३३३३३३३



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

०१११ १४ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११

०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११
०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११ ०१११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X VIDEHA

५४१३

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

५४१३

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९
१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९

५४१३

१९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९ १९९९



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

गान्धीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

०० ००० ०० ०००० ०००० ०००० ०० ०००

० ०० ०००००० ००० ०० ०००० ०००००० ०० ००००
०००० ०००० ०००० ०० ०००००० ०० ००००

० ०० ०००० ०००० ००००० ०००० ००००
०००० ०००० ०००००० ०००००० ०० ००००

०००००० ०० ०००० ०००० ००००० ००००० ००००० ०००००
०० ०००० ०० ०००० ००० ००००००० ०० ००००

००००० ०००० ००००००० ००००००००० ०० ००००
०० ०००० ०० ००००० ००००० ०००००००० ०० ००००

००००

०००० ००००००० ०० ०००० ००० ००० ०००००००
००००००००० ०० ००० ००००००० ००० ०००००००

००० ०० ००००० ००० ००००० ०० ०००००
००००० ००००० ००००० ००००० ०० ०००० ०००००००

००० ०००० ०००००० ०० ०००००० ०० ०००००००
००००० ००००० ०००००० ००० ०००००० ०००० ०००००००

०००००० ००० ००००००० ०००० ००००० ०००० ०००००००
००० ०००००००० ०००००००० ०००० ००००००००

००००० ००००००० ०० ००००० ०००० ००००० ०००००००
००० ०००० ०००००० ०००००००० ०००० ००००००००

००००

० ००००० ०००० ००००० ००००० ००००
०००० ०० ००००० ००००० ००००० ००००० ००००



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

मानसिंह संस्कृतम्

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

१११

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

१११

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह
विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह

विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह विदेह



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह सरस्वत

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम्, ISSN 2229-547X, VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानुसिंह सरकट्टा

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह

विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह,
विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह, विदेह



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मासुपिदिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पत्रिका ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरकट्टा

ISSN 2229-547X VIDEHA

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४

म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४ ०१०४
म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४ म. १०४



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माथुषीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

२ म अंक ०१ सितम्बर

३ म अंक ०१ सितम्बर
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
४ म अंक ०१ सितम्बर
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर
२ म अंक ०१ सितम्बर
विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम द्वाैधिवी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

बि एच ए विदेह Videha विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका Videha 1st Maithili
Fortnightly e Magazine विदेह अंश ७५ मैथिली पत्रिका अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEOHA

मानवविह संस्कृतम्

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ४
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माहसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 1. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 2. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 3. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
 4. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।

1. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
2. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
3. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
4. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
5. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
6. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
7. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
8. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
9. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।
10. पत्रिका के सम्पादन के सम्बन्ध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए।



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

माहसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ पत्राणां कृतं ।
 अत्रकृतं सल्लो ज्ञानं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 मनुष्यं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

४ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ

मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ ॥

मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

५ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

६ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ॥

तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

७ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ॥

मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

८ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ॥

तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

९ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।
 तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।

१० मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ॥

११ मन् एतं पत्रं तदुत्पत्तौ तदुत्पत्तौ ।



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

॥

३०

२२

॥

॥

IR2II

॥

ॐ



यन्त्रविह संस्कृतम्

(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९)<http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
 अंश योथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१
 सितम्बर २०११

बि एन ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसुषीमिह

::

::

::

::

::

३

::

::

”

”

”

” ::

::

::

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय द्योशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धुमिह संस्कृतम्

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम दैहिकी पक्षिक ए पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीविह

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दशैशिनो पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धुमिह संस्कृतम्

२

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम दैहिकी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीविह

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय द्वाैशिनौ पौष्णिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धुमिह संस्कृतम्

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम दैहिक पारिषद अ पत्रिका विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवीय

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिषद ई पत्रिका
विदेह प्रथम दैहिक पारिषद अ पत्रिका विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
<http://www.videha.co.in>
संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम दोषिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम दोषिदी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X **VIDEHA**

द्वितीय संस्करण विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अथय द्योथिनी पौष्फिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

३ नवंबर २०११ को विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अथय द्योथिनी पौष्फिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

४ नवंबर २०११ को विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अथय द्योथिनी पौष्फिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

५ नवंबर २०११ को विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अथय द्योथिनी पौष्फिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

माधुसूदिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दोधिवी पक्षिक ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दोधिवी पक्षिक ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दोधिवी पक्षिक ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका
विदेह प्रथम दोधिवी पक्षिक ३ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१
सितम्बर २०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह सरस्वती

१. विदेह
२. विदेह
३. विदेह
४. विदेह
५. विदेह
६. विदेह
७. विदेह
८. विदेह
९. विदेह
१०. विदेह
११. विदेह
१२. विदेह
१३. विदेह
१४. विदेह
१५. विदेह
१६. विदेह
१७. विदेह
१८. विदेह
१९. विदेह
२०. विदेह
२१. विदेह
२२. विदेह
२३. विदेह
२४. विदेह
२५. विदेह
२६. विदेह
२७. विदेह
२८. विदेह
२९. विदेह
३०. विदेह
३१. विदेह
३२. विदेह
३३. विदेह
३४. विदेह
३५. विदेह
३६. विदेह
३७. विदेह
३८. विदेह
३९. विदेह
४०. विदेह
४१. विदेह
४२. विदेह
४३. विदेह
४४. विदेह
४५. विदेह
४६. विदेह
४७. विदेह
४८. विदेह
४९. विदेह
५०. विदेह
५१. विदेह
५२. विदेह
५३. विदेह
५४. विदेह
५५. विदेह
५६. विदेह
५७. विदेह
५८. विदेह
५९. विदेह
६०. विदेह
६१. विदेह
६२. विदेह
६३. विदेह
६४. विदेह
६५. विदेह
६६. विदेह
६७. विदेह
६८. विदेह
६९. विदेह
७०. विदेह
७१. विदेह
७२. विदेह
७३. विदेह
७४. विदेह
७५. विदेह
७६. विदेह
७७. विदेह
७८. विदेह
७९. विदेह
८०. विदेह
८१. विदेह
८२. विदेह
८३. विदेह
८४. विदेह
८५. विदेह
८६. विदेह
८७. विदेह
८८. विदेह
८९. विदेह
९०. विदेह
९१. विदेह
९२. विदेह
९३. विदेह
९४. विदेह
९५. विदेह
९६. विदेह
९७. विदेह
९८. विदेह
९९. विदेह
१००. विदेह



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह सरस्वत

- १४. ...
- १५. ...
- १६. ...
- १७. ...
- १८. ...
- १९. ...
- २०. ...
- २१. ...



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X VIDEHA

वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह अथय दैचिनी पश्चिम अ

विदेह ८९ म अंक ०१

सितम्बर २०११

मानसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X

VIDEHA

वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९

विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह अथय दैचिनी पश्चिम अ

विदेह ८९ म अंक ०१

सितम्बर २०११

मानसिंह सरस्वती

ISSN 2229-547X

VIDEHA



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

२०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 २०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 २०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 २०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 २०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 २०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

२०२० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

३

३०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 ३०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

४०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 ४०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

५०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

५०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

६००

६०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

७०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 ७०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 ७०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

८०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९
 ८०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

९०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

९०० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

९९९ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

२००० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

२००० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

२०००

२००० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९

२००० वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९



मानसिंह संस्कृतम्

(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

१६ म अंक अंक अंक अंक अंक

१७ म अंक

अंक

१८ म

अंक अंक अंक अंक

१९ म अंक अंक अंक अंक

२०

अंक अंक अंक अंक

२१ म अंक अंक अंक अंक अंक

२२ म

अंक अंक, अंक २३ म अंक अंक अंक अंक

२४ म अंक अंक अंक अंक

२५ म अंक अंक अंक

२६ म अंक

अंक अंक अंक अंक

२७ म अंक अंक

अंक अंक अंक अंक अंक अंक
अंक, अंक अंक

२८ म अंक अंक अंक अंक, अंक, अंक अंक

२९ म

अंक अंक अंक अंक अंक

३० म अंक अंक, अंक

३१ म अंक अंक अंक अंक अंक

अंक अंक अंक अंक

अंक अंक

३२ म अंक अंक

३३ म

अंक अंक अंक



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३४ म ०० ३३० ३३० ०० ३३३३३ ३३३ ०० ३३३ ३३३

३५ म ३३३३३ ३३३३३ ३३३ ३३३३३

३६ म ३३ ३३३ ३ ३ ३ ३३३

३७ म

३८ म ३३३ ३३३३

३९ म ३३३३३३ ३३३३३३ ३३३३३३

४० म ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३ ३३३ ३३३३३ ३३३

४१ म

४२ म ३३३३३ ३३३३३ ३३३३३

४३ म ३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३३ ३३ ३३३ ३३

४४ म ३३३३३३ ३३३ ३३३३ ३३ ३३३ ३३३३ ३३३

४५ म

४६ म ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३ ३३

४७ म ३३ ३३ ३३

४८ म ३३३ ३३३३ ३३३ ३३३३

४९ म

५० म ३३३३३ ३३३३३

५१ म

५२ म ३३३३३ ३३३३३

३३३३३



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह संस्कृतम्

- ७३ : ...
- ७४ : ...
- ७५ : ...
- ७६ : ...
- ७७ : ...
- ७८ : ...
- ७९ : ...
- ८० : ...
- ८१ : ...
- ८२ : ...
- ८३ : ...
- ८४ : ...
- ८५ : ...
- ८६ : ...
- ८७ : ...
- ८८ : ...
- ८९ : ...
- ९० : ...
- ९१ : ...
- ९२ : ...
- ९३ : ...

बि ए नू विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* त्रिदेह प्रथम दैयिदि पक्षिक ॐ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

संस्कृतम् **ISSN 2229-547X VIDEHA**

मानसिंह

- ७४ ः ः ः ः
- ७५ ः
- ७६ ः
- ७७ ः ः ः ः ः ः ः
- ७८ ः ः ः ः ः
- ७९ ः
- ८० ः ः ः
- ८१
- ८२ ः ः ः ः
- ८३ ः ः ः ः ः
- ८४ ः ः ः ः
- ८५ ः ः ः ः ८६ ः
- ८७ ः ः ः ः ः ः ः
- ८८ ः ः ः
- ८९ ः ः ः ः
- ९० ः ः ः ः ः
- ९१ ः ः ः
- ९२ ः ः ः
- ९३ ः ः



मानसिंह सरकट्टा

(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

९५ : ०० ०० ०० ०० ००

९५ : ०० ०० ०० ०० ००

९६ :

०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

९७ : ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

९८ : ०० ०० ०० ०० ००

९९ : ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

१०० : ०० ०० ०० ०० ०० ००

१०१ :

०० ०० ०० ०० ००

१०२ : ०० ०० ०० ०० ००

१०३ :

०० ००

१०४ : ०० ०० ०० ०० ०० ००

१०५ :

०० ००

१०६ : ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

१०७ : ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

१०८ :

०० ०० ०० ०० ००

१०९

०० ०० ०० ०० ०० ००

११० : ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

१११ : ०० ०० ०० ०० ०० ००

११२ : ०० ०० ०० ०० ०० ०० ०० ००

११३ : ०० ०० ०० ०० ०० ००

०० ०० ०० ००



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

१३२ * ००० १०० १००० ०० ०००० १००० १०००
१०००

१३३ * १०० १०० १०० १०००

१३४ * १००० १०००० १००००

१३५ * १०० १००

१३६ * १०००० १००

१०० १०० १०००० १००

१३७ * १०० १०० १०० १००० १००० १००० १०००
१००० १००० १००० १००० १००० १००० १०००
१००० १०००

१३८ *

१००० १००० १००० १०००

१३९ * १००० १००० १००० १०००

१४०

* १०० १००

१४१ * १००००

१४२ *

१०००० १०००

१४३ *

१००० १०००

१४४ * १००० १००० १०००

१४५ *

१००

१४६ *

१००

१४७

* १०००० १०००० १००००

१४८ * १०००००

१४९ * १०००० १००००



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

१५० : ०००० ००००

१५१ : ०००० ००००

१५२ : ०००००० ०००००० ०००००० ००००००
००००००

१५३ : ००००००

००००००

१५४ : ०००००००० ०००००० ०००००० ०००००० ०००००० ००००००

१५५ : ००००

००००

१५६ : ०००० ००००

१५७

० ०००० ००००

१५८ : ०००० ००००० ००००० ०००००

१५९ : ०००० ००००

१६० :

००००० ०० ०००००००० ००००० ०० ००००००००

१६१ : ०००० ००००

१६२ :

०००० ००००

१६३ : ०००० ०००० ००००

१६४ : ०००००० ०००००० ००००००

१६५ : ००००००

१६६ : ००० ०००० ००००

१६७ : ०० ००००

१६८ :

०० ०००

१६९ : ०००००००० ००००००



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवसिंह सरस्वत

- १७० : ...
- १७१ : ...
- १७२ : ...
- १७३ : ...
- १७४ : ...
- १७५ : ...
- १७६ : ...
- १७७ : ...
- १७८ : ...
- १७९ : ...
- १८० : ...
- १८१ : ...
- १८२ : ...
- १८३ : ...
- १८४ : ...
- १८५ : ...
- १८६ : ...
- १८७ : ...
- १८८ : ...
- १८९ : ...



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- १९० :
 १९१ :
 १९२ :
 १९३ :
 १९४ :
 १९५ :
 १९६ :
 १९७ :
 १९८ :
 १९९ :
 २०० :
 २०१ :
 २०२ :
 २०३ :
 २०४ :
 २०५ :
 २०६ :
 २०७ :
 २०८ :



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवमिह संस्कृतम्

- २०९ :
- २१० :
- २११ :
- २१२ :
- २१३ :
- २१४ :
- २१५ :
- २१६ :
- २१७ :
- २१८ :
- २१९ :
- २२० :
- २२१ :
- २२२ :
- २२३ :
- २२४ :
-
- २२५ :
- २२६ :
- २२७ :
- २२८ :
- २२९ :
- २३० :
-



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासपत्रिका

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- २३१
- २३२
- २३३
- २३४
- २३५
- २३६
- २३७
- २३८
- २३९
- २४०
- २४१
- २४२
- २४३
- २४४
- २४५
- २४६
- २४७
- २४८
- २४९
- २५०
- २५१
- २५२



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवमिह संस्कृतम्

- २५३
- २५४
- २५५
- २५६
- २५७
- २५८
- २५९
- २६०
- २६१
- २६२
- २६३
- २६४
- २६५
- २६६
- २६७
- २६८
- २६९
- २७०
- २७१
- २७२
- २७३



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

- २७४
- २७५
- २७६
- २७७
- २७८
- २७९
- २८०
- २८१
- २८२
- २८३
- २८४
- २८५
- २८६
- २८७
- २८८
- २८९
- २९०
- २९१
- २९२



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

- २९३ ...
- २९४ ...
- २९५ ...
- २९६ ...
- २९७ ...
- २९८ ...
- २९९ ...
- ३०० ...
- ३०१ ...
- ३०२ ...
- ३०३ ...
- ३०४ ...
- ३०५ ...
- ३०६ ...
- ३०७ ...
- ३०८ ...
- ३०९ ...
- ३१० ...



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

३३३ ३३३ ३३३ ३३३ ३३३

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय द्वाैशिनौ पौष्णिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धुमिह संस्कृतम्

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम दैहिकी पक्षिक ७ पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९ <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीविह

::
:: ::

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय द्वायिनी पौष्पिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

गान्धुमिह संस्कृतम्

ISSN 2229-547X VIDEHA

:: :: ::

:: :: ::

:: :: ::

:: :: ::

::

::

::

::

::

::

::

::

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha Ist Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम दैहिकी पक्षिक ए पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
संस्कृतम्, ISSN 2229-547X VIDEHA

गान्धीविह

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह अंशय दशैथिनी पौषिक अ विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>
ISSN 2229-547X VIDEHA

मानवसिंह सरस्वत



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

ISSN 2229-547X VIDEHA

मानसिंह संस्कृतम्

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६
आ

१७

१८

१९



२०

२१

२२

२३

२४

२५

बि एच ए विदेह *Videha* विदेह विदेह प्रथम मैथिली पारिभाषिक ई पत्रिका *Videha 1st Maithili Fortnightly e Magazine* विदेह प्रथम दैहिक पारिभाषिक ए पत्रिका/विदेह ८९ म अंक ०१ सितम्बर



२०११ (वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मासुपिह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

६९२

१ २ ३ ४

१ २ ३ ४

१ २ ३ ४



(वर्ष ४ मास ४९ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानसिंह सरस्वत

ISSN 2229-547X VIDEHA

११ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 ११ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

११ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 ११ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

१२ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 १२ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

१३ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 १३ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

१४ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 १४ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

१५ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 १५ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११

१६ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११
 १६ म अंक ४९ अंक ८९ म अंक ०१ सितम्बर २०११



२०११ वर्ष ४ मास ४५ अंक ८९) <http://www.videha.co.in>

मानवीविह

संस्कृतम् ISSN 2229-547X VIDEHA

४५ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४६ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४७ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४८ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

४९ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

५० नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

५१ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

५२ नवम्बर २०११ अंक ८९) विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

विदेह विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका विदेह प्रथम मैथिली पक्षिक ई पत्रिका

